

जापानी बहू से बात करने के लिए अंग्रेजी सीख रही हैं किशोरी गुप्ता



पत्थलगांव। यदि मन में कुछ सीखने की इच्छा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बन सकती है। ऐसे ही लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए जशपुर कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने जिला ग्रन्थालय में इंग्लिश स्पोकन का निशुल्क क्लैश कोर्स संचालित कराया है। छत्तीसगढ़ में जशपुर की इस अनोखी पाठशाला में किशोरी गुप्ता (50) ऐसी ही महिला है जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होने से वह बीते चार वर्षों से सिंगापुर में रहने वाली अपनी जापानी बहू और पोती के साथ बात नहीं कर पा रही है।

गुप्ता ने बताया कि उनका पुत्र अंशुमन गुप्ता सिंगापुर में एक कम्पनी में कार्यरत है। वहां रहते हुए बेटे ने अपनी ही कम्पनी में पदस्थ जापानी युवती मियाको निशीमुरा से विवाह किया है। किन्तु अब बेटे के विवाह उपरांत सास के सामने अपनी बहू से बात करने में भाषाई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल इस महिला को अंग्रेजी नहीं आती और जापानी बहू को हिन्दी। बीते चार साल से दोनों के बीच संवाद हीनता की समस्या को समाप्त करने गुप्ता काफी परेशान थी। इस महिला के लिए अब जशपुर में संचालित इंग्लिश स्पोकन क्लास वरदान साबित हो गई है। गुप्ता नियमित रूप से इंग्लिश स्पोकन की कक्षा में जा रही है और वह अब काफी उत्साहित है कि अपनी बहू और अपनी दो वर्षीय पोती अमिका से अंग्रेजी में बात कर सकेंगी।

कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने बताया कि जिला ग्रन्थालय में इंग्लिश स्पोकन का क्लैश कोर्स संचालित कराया जा रहा है। इस पाठशाला में सभी आयु वर्ग के लोग अति उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं और इंग्लिश भाषा में बात करना सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पाठशाला में विद्यार्थी सहित शासकीय कर्मचारी एवं महिलाओं की भी भरपूर सहभागिता हो रही है। इंग्लिश स्पोकन में शामिल प्रतिभागी क्लास के अतिरिक्त इंग्लिश में डिबेट के साथ स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम और रोड टू सक्सेस जैसे कार्यक्रम में समिलित होकर अपनी ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं।